

कम नकदी लेन-देन वाले 100 और इलाके तीन महीने में: जीएनएफसी

| Updated: Apr 16, 2017, 04.05PM IST

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल :भाषा: तेल कंपनियों, सुरक्षाकर्मियों, उर्वरक कंपनियों के 100 से अधिक प्रतिष्ठान तथा अन्य कालोनी अगले तीन महीनों में कम नकदी के उपयोग वाले इलाके होंगे। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स :जीएनएफसी: के एक शीर्ष अधिकारी ने यह कहा।

भड़ौच में जीएनएफसी के कस्बे को भारत का पहला 100 प्रतिशत नकद विहीन कालोनी घोषित किया गया है और सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये जीएनएफसी के मॉडल को अन्य बड़े इलाकों में दोहराने का फैसला किया है।

अब कंपनी अपनी इकाइयों के आसपास नकदी के उपयोग की व्यवस्था में रूचि रखने वालों के लिये सलाहकार के रूप में काम कर रही है।

किसी इलाके को उस समय नकद रहित घोषित किया जाता है जहां 80 से 100 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्यमों से किया जाता है।

जीएनएफसी के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार गुप्ता ने पीटीआई भाषा से कहा, देश में हजारों नकद रहित लेन-देन वाले इलाके स्थापित किये जाने की संभावना है। हम नीति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में इस बारे में कड़ियों से रूचि प्राप्त की है। हमारा अनुमान है कि अगले 2-3 महीनों में 100 नकद रहित लेन-देन वाले कस्बे होंगे।

उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल तक 81 लेस कैश टाउनशिप्स को अप्रूवल मिल चुका है। यहां से हर साल 9 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांज़ैक्शन होने की उम्मीद है।...

सलाहकार के तौर पर काम करती है जीएनएफसी ...

जीएनएफसी अब उन कंपनियों व लोगों के लिए सलाहकार के तौर पर काम करती है, जो लेस कैश के इकोसिस्टम को तैयार करना चाहते हैं। किसी भी टाउनशिप को तब लेस कैश का दर्जा दिया जाता है, जब वहां रहने वाले सभी लोग 80 से 100 फीसदी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करने लगते हैं। ...